

पत्रांकः जी.एस.टी./2019-20/

1920038

403 / वाणिज्य कर
कार्यालय- कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

(जी.एस.टी. अनुभाग)

लखनऊः दिनांक: 18 जुलाई, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)/(कार्पोरेट)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः- सी.बी.ई.सी. द्वारा जारी परिपत्र संख्या 102/21/2019-जी.एस.टी. के शुद्धि पत्र के सम्बन्ध में।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ इन्डायरेक्ट टैक्सेस एण्ड कस्टम द्वारा एडीशनल/दण्डनीय ब्याज पर जी.एस.टी. की देयता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु परिपत्र संख्या 102/21/2019-जी.एस.टी. दिनांक 28.06.2019 जारी किया गया, जिसके अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा परिपत्र संख्या 314 दिनांक 28.06.2019 जारी किया गया। उक्त परिपत्र के सम्बन्ध में सी.बी.ई.सी. द्वारा शुद्धि पत्र जारी किया गया जिसके अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा शुद्धि पत्र संख्या 327 दिनांक 02.07.2019 जारी किया गया।

परिपत्र संख्या 102/21/2019-जी.एस.टी. के सम्बन्ध में जारी शुद्धि पत्र में कतिपय त्रुटियां होने के कारण सी.बी.ई.सी. द्वारा उक्त परिपत्र के सम्बन्ध में पुनः शुद्धि पत्र दिनांक 15.07.2019 जारी किया गया है जिसकी छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अजीत कुमार शुक्ला)

एडीशनल कमिश्नर (विधि)

वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

Corrigendum to Circular No. 102/21/2019-GST

CBEC/20/16/4/2018-GST
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes and Customs
GST Policy Wing

New Delhi, Dated the 15th July, 2019

To,

The Principal Chief Commissioners/ Chief Commissioners/ Principal Commissioners/ Commissioners
of Central Tax (All)

The Principal Director Generals/ Director Generals (All)

Madam/Sir,

**Subject: Corrigendum to Circular No. 102/21/2019-GST dated 28th June, 2018 issued vide F. No.
CBEC/20/16/4/2018-GST - reg.**

In para 5 of the Circular No. 102/21/2019-GST dated 28th June, 2018,

for

“Case 2: The additional / penal interest is charged for a transaction between Y and M/s ABC Ltd., and the same is getting covered under Sl. No. 27 of notification No. 12/2017-Central Tax (Rate) dated 28.06.2017. Accordingly, in this case the 'penal interest' charged thereon on a transaction between Y and M/s ABC Ltd. would not be subject to GST, as the same would not be covered under notification No. 12/2017-Central Tax (Rate) dated 28.06.2017. The value of supply of mobile by X to Y would be Rs. 40,000/- for the purpose of levy of GST.”

read,

“Case 2: The additional / penal interest is charged for a transaction between Y and M/s ABC Ltd., and the same is getting covered under Sl. No. 27 of notification No. 12/2017-Central Tax

Corrigendum to Circular No. 102/21/2019-GST

(Rate) dated 28.06.2017. Accordingly, in this case the 'penal interest' charged thereon on a transaction between Y and M/s ABC Ltd. would not be subject to GST, as the same would not be covered under notification No. 12/2017-Central Tax (Rate) dated 28.06.2017. The value of supply of mobile by X to Y would be Rs. 40,000/- for the purpose of levy of GST."

2. It is requested that suitable trade notices may be issued to publicize the contents of this Circular.
3. Difficulty, if any, in implementation of this Circular may please be brought to the notice of the Board. Hindi version would follow.

(Upender Gupta)
Pr. Commissioner (GST)